



बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग - 2

मंगलवार, तिथि

06 चैत्र, 1940 (श.)

27 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या - 03

1.	स्वास्थ्य विभाग	-	-	01
2.	ऊर्जा विभाग	-	-	02
				<hr/>
				कुल योग - 03

पदस्थापना कबतक

168. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर प्रखंड तेतारपुर पंचायत धर्मपुर गांव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन लगभग पांच वर्षों से बन कर तैयार है;
- (ख) क्या यह सही है कि वर्षों से निर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए आज तक न तो किसी नर्स या कम्पाउंडर का पदस्थापना किया गया और न तो कोई आते-जाते हैं;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वास्थ्य उपकेन्द्र में नर्स एवं कम्पाउंडर की पदस्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पोल, तार एवं ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था

169. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी जिलों में पुराने जर्जर तार, पोल आदि बदल कर नये तार, पोल, ट्रांसफॉर्मर आदि लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है;
- (ख) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में जर्जर तार काफी नीचे रहने के कारण 13 सितम्बर, 2017 को हथुवा प्रखंड के कुसौंधी में एक महिला सहित एक बच्चे की मृत्यु हो गई एवं कई हादसे हुए हैं;
- (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक गोपालगंज जिले में जर्जर तार, पोल एवं ट्रांसफॉर्मर आदि बदलना चाहती है?

विद्युत केन्द्र की स्थापना

170. श्री राणा गंगेश्वर सिंह : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

- (क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर प्रखंड अंतर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराया गया जो मोहिउद्दीननगर उत्तरी सीमा जीरो कि.मी. पर कल्याणपुर बस्ती में निर्माण कराया गया;
- (ख) क्या यह सही है कि मोहिउद्दीननगर प्रखंड के दर्जनों पंचायतों को 15 कि.मी. वर्तमान कल्याणपुर बस्ती उपकेन्द्र है और बिजली जरूरत के मुताबिक दक्षिणी क्षेत्र को नहीं मिल रही है;
- (ग) क्या यह सही है कि मोहिउद्दीननगर प्रखंड की ग्यारह दक्षिणी पंचायतों यथा-रासपुर पतसिया पूर्व, रासपुर पतसिया पश्चिम, हरैल, कुरसाहा, तेतारपुर, महम्मदीपुर, बोचहा, दुबहा, करीमनगर, मोहिउद्दीननगर दक्षिण एवं मोहिउद्दीननगर उत्तर पंचायतों के बीच महम्मदीपुर बाजार के पास एक नया विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की मांग होती रही है;
- (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार महम्मदीपुर बाजार के पास एक नया विद्युत केन्द्र बनाने पर विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना
दिनांक : 27 मार्च, 2018

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्